

दवाला और दवालियापन (संशोधन) अध्यादेश को स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दवाला और दवालियापन (संशोधन) अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की गई है। यद्यपि अध्यादेश वधियक में परिवर्तित हो जाता है तो आम लोगों को काफी राहत मिलेगी क्योंकि अभी तक इस कानून के अंतर्गत केवल बैंक और अन्य उधारदाताओं को ही अपना बकाया वापस ले सकने का अधिकार था लेकिन आम लोगों के पास इस संबंध में कोई अधिकार नहीं था।

महत्त्वपूर्ण बंदी

- इस संशोधन का प्रस्ताव दवाला एवं दवालियापन कानून (IBC) में एक नई धारा 29A जोड़े जाने के बाद आया है।
- IBC में यह संशोधन सरकार द्वारा इस संबंध में सफ़ारिशें देने के लिये गठित 14 सदस्यीय समिति की सफ़ारिशों पर आधारित है।
- समिति की सफ़ारिश के अनुसार, रयिल एस्टेट डेवलपर की परियोजनाओं में मकान खरीदने वाले ग्राहकों को भी बैंकों की तरह वित्तीय कर्जदाता की श्रेणी में माना जाना चाहिये।
- समिति की सफ़ारिशों में IBC कानून के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को भी राहत पहुँचाने का सुझाव शामिल है।
- दवाला एवं दवालियापन कानून में संशोधन से संबंधित यह दूसरा अध्यादेश है। इससे पूर्व संशोधन फरवरी 2017 में किया गया था।

संशोधन का महत्त्व

- देश में लाखों लोगों द्वारा नरिमाता के पास उनके पैसे फँसे होने की शिकायत के बाद इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है। मकान न मिलने की स्थिति में भी नरिमाताओं द्वारा उनकी जमा राशि लौटाई नहीं जाती।
- समिति की सफ़ारिशों में घर खरीदने वाले लोगों को भी बैंक की तरह नरिमाता (बिल्डर) को ऋण देने वालों की श्रेणी में शामिल करना और घर खरीदने वालों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देना शामिल है।
- यदि किसी रयिल एस्टेट कंपनी को दवालिया घोषित किया जाता है तो समाधान प्रक्रिया में घर खरीदने वालों को भी बराबर का भागीदार बनाया जाना चाहिये।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दृष्टि में कदम उठाते हुए एक नया दवालियापन संहिता संबंधी वधियक 2016 में पारित किया था।
- दवाला एवं दवालियापन संहिता, 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920' को रद्द करती है तथा कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूरिटीजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करती है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालिया हो सकते हैं और यदि कोई आर्थिक इकाई दवालिया होती है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है।